

# **Chapter-3**

## **समतल में गति**

### **Motion in a Plane**

#### **प्रश्नावली**

**प्रश्न 1.** निम्नलिखित भौतिक राशियों में से बतलाइए कि कौन-सी सदिश हैं और कौन-सी अदिश आयतन, द्रव्यमान, चाल, त्वरण, घनत्व, मोल संख्या, वेग, कोणीय आवृत्ति, विस्थापन, कोणीय वेग?

हल अदिश राशियाँ आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, मोल संख्या तथा कोणीय आवृत्ति सदिश राशियाँ त्वरण, वेग, विस्थापन तथा कोणीय वेग।

**प्रश्न 2.** निम्नांकित सूची में से दो अदिश राशियों को छाँटिए  
बल, कोणीय संवेग, कार्य, धारा, रैखिक संवेग, विद्युत क्षेत्र, औसत वेग, चुंबकीय आघूर्ण, आपेक्षिक वेग।

हल कार्य तथा धारा अदिश राशियाँ हैं।

**प्रश्न 3.** निम्नलिखित सूची में से एकमात्र सदिश राशि को छाँटिए  
ताप, दब, आवेग, समय, शक्ति पूरी पथ-लंबाई, कर्जा, गुरुत्वीय विभव, घर्षण गुणांक, आवेश।

जिस प्रकार समान विमाओं वाली दो सदिश राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है।  
इसी प्रकार समान विमाओं वाली दो अदिश राशियों को परस्पर जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है।

हल दी गई राशियों में से केवल आवेग सदिश राशि है।

**प्रश्न 4.** कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएँ अर्थपूर्ण हैं?

- (a) दो अदिशों को जोड़ना,
- (b) एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना,
- (c) एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना,
- (d) दो अदिशों का गुणन,
- (e) दो सदिशों को जोड़ना,
- (f) एक सदिश के घटक की उसी सदिश से जोड़ना।

हल (a) नहीं, दो अदिश राशियों को जोड़ना अर्थपूर्ण नहीं है क्योंकि समान विमाओं अर्थात् समान मात्रकों वाले अदिशों को ही जोड़ा जा सकता है।  
(b) नहीं, एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक अदिश को सदिश में नहीं जोड़ा जा सकता है।  
(c) हाँ, एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना अर्थपूर्ण है। जब एक सदिश की अदिश से गुणा करते हैं तो हमें एक सदिश प्राप्त होता है जिसका परिमाण सदिश एवं अदिश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा दिए गए सदिश की दिशा में होती है।  
उदाहरण 4 kg द्रव्यमान का एक पिण्ड 20 m/s के वेग से पूर्व दिशा में गति कर रही है द्रव्यमान तथा वेग गुणनफल से पिण्ड का संवेग प्राप्त होता है जोकि एक सदिश राशि है।

$$\begin{aligned} p &= mv = 4 \text{ kg} \times (20 \text{ m/s}) \\ &= 80 \text{ kg-m/s, पूर्व} \end{aligned}$$

- (d) हाँ, दो अदिशों का गुणनफल अर्थपूर्ण है। घनत्व  $p$  तथा आयतन  $V$  दोनों अदिश राशियाँ हैं। जब घनत्व का आयतन से गुणा की जाती है तब हमें  $p \times V = m$ , वस्तु का द्रव्यमान प्राप्त होती है जोकि एक अदिश राशि है।
- (e) नहीं, दो सदिशों को जोड़ना अर्थपूर्ण नहीं है क्योंकि समान विमा अर्थात् समान मात्रक के सदिशों को ही परस्पर जोड़ा जा सकता है।
- (f) हाँ, एक सदिश के घटक का उसी सदिश से जोड़ना अर्थपूर्ण है। क्योंकि दोनों सदिशों की विमाएँ समान हैं।

**प्रश्न 5.** निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कररण सहित बताइए कि यह सत्य है या असत्य

- (i) किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है,  
किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है,

- (c) किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लम्बाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है,

(d) किसी कण की औसत चाल (पथ तय करने में लगे समय द्वारा विभाजित कुल पथ-लंबाई) समय के समान-अंतराल में कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है।

(e) उन तीन सदिशों का योग जो एक समताल में नहीं है, कभी भी शून्य सदिश नहीं होता।

**हल**

(a) सत्य, क्योंकि एक सदिश का परिमाण सदैव एक संख्या होता है जोकि एक अदिश है।

(b) असत्य, क्योंकि एक सदिश का प्रत्येक घटक सदैव एक सदिश होता है।

(c) सत्य, केवल जब वस्तु सरल रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो अन्यथा असत्य।

(d) सत्य, क्योंकि औसत चाल =  $\frac{\text{पथ की कुल लम्बाई}}{\text{कुल समय}}$

तथा औसत वेग =  $\frac{\text{कुल विस्थापन}}{\text{कुल लगा समय}}$

परन्तु पथ की कुल लम्बाई सदैव उसी समयान्तराल में विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होती है। अतः औसत चाल समान समयान्तराल में कण के औसत वेग के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होता है।

(e) सत्य, क्योंकि तीन सदिश, जो एक समताल में नहीं हैं, एक त्रिभुज की क्रम में ली गई तीन भजाओं के प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।


**प्रश्न 6.** निम्नलिखित असमिकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए।

- (a)  $|a + b| \leq |a| + |b|$       (b)  $|a + b| \geq |a| - |b|$   
 (c)  $|a - b| \leq |a| + |b|$       (d)  $|a - b| \geq ||a| - |b||$

इनमें समिका (समता) का चिह्न कब लाग दोता है?

त्रिभुज के गुणों से, किसी त्रिभुज की एक भुजा की लम्बाई उसकी शेष दो भुजाओं की लम्बाईयों के योग से सदैव कम होती है।

हल माना दो सदियों a तथा b को विभुज OPQ की एक क्रम शुजाओं OP तथा PQ द्वारा प्रदर्शित किया गया है तथा उसका परिणामों OQ द्वारा प्रदर्शित किया गया है।



- (a) त्रिभुज के गुणों से, किसी त्रिभुज की एक भुजा, उसकी शेष दो भुजाओं के योग से सदूच कम होती है।  
 $\therefore \triangle OPQ$  में,

$$OQ < OP + PQ$$

$$\text{अथवा} \quad |a + b| < |a| + |b| \quad \dots(i)$$

यदि सदिश  $a$  व  $b$  एक ही रेखा में समान दिशा में कार्यरत हैं तब इनके परिणामी सदिश का परिमाण,

$$\begin{aligned} |a + b| &= \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab\cos\theta} \\ &= \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab\cos 0^\circ} \quad (\because \theta = 0^\circ) \\ &= \sqrt{(a + b)^2} \\ &= (a + b) \\ |a + b| &= |a| + |b| \quad \dots(ii) \end{aligned}$$

सभी (i) व (ii) से,

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

दोनों पक्ष समान होंगे जब दोनों सदिश  $a$  तथा  $b$  समान दिशा में एक ही रेखा के अनुदिश हों।

- (b) त्रिभुज के गुणों से त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के अन्तर से अधिक होती है।  
अतः  $\triangle OPQ$  में,

$$OQ > |OP - PQ|$$

दाएँ पक्ष में  $(OP - PQ)$  का परिमाण लिया गया है क्योंकि  $OQ$  धनात्मक है तथा  $(OP - PQ)$  ऋणात्मक हो सकता है, यदि  $PQ > OP$

$$\therefore |a + b| > |a| - |b| \quad \dots(iii)$$

यदि दिए गए दोनों सदिश एक ही रेखा में परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हो, तब


$$|a + b| = |a| - |b| \quad \dots(iv)$$

सभी (iii) व (iv) से,

$$|a + b| \geq |a| - |b|$$

यदि सदिश  $a$  व  $b$  एक ही सरल रेखा में परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं तो समानांतर चिह्न मान्य होगा।

- (c) यदि  $PR$  सदिश  $-b$  को तथा सदिश  $a$  व  $-b$  का परिणामी  $OR$  के द्वारा प्रदर्शित हो तब,



त्रिभुज के गुणों से, किसी त्रिभुज की एक भुजा उसकी शेष दो भुजाओं की लम्बाईयों के योग से कम होती है। अतः  $\Delta OPR$  में,

$\therefore$

$$OR < OP + PR$$

$$|a - b| < |a| + |b|$$

परन्तु  $| - b | = | b |$ , क्योंकि किसी सदिश का परिमाण सदैव धनात्मक होता है।

अथवा

$$|a - b| < |a| + |b| \quad \dots(v)$$

यदि सदिश  $a$  तथा  $b$  एक सरल रेखा में परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, तब

$$|a - b| = |a| + |b| \quad \dots(vi)$$

सभी (v) व (vi) से,

$$|a - b| \leq |a| + |b|$$

(d) त्रिभुज के गुणों से, त्रिभुज की एक भुजा इसकी शेष दो भुजाओं के अन्तर से अधिक होती है।

$\therefore \Delta OPR$  में,

$$OR > |OP - PR|$$

दाँए पक्ष में  $(OP - PR)$  का परिमाण लिया गया है, क्योंकि बाँए पक्ष में  $OR$  धनात्मक है परन्तु दाँए पक्ष में  $(OP - PR)$  ऋणात्मक हो सकता है। यदि  $PR > OP$

$\therefore$

$$|a - b| > |a| - |b|$$

$$|a - b| > |a| - |b| \quad \dots(vii)$$

यदि सदिश  $a$  तथा  $b$  एक ही सरल रेखा में समान दिशा में हैं, तब

$$|a - b| = |a| - |b| \quad \dots(viii)$$

सभी (vii) तथा (viii) से,

$$|a - b| \geq |a| - |b|$$

दोनों पक्ष बराबर होंगे यदि सदिश  $a$  तथा  $b$  एक ही रेखा में समान दिशा में हों।

**प्रश्न 7.** दिया है  $a + b + c + d = 0$ , नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा सही हैं?

- (a)  $a, b, c$  तथा  $d$  में से प्रत्येक शून्य सदिश है,
- (b)  $(a + c)$  का परिमाण  $(b + d)$  के परिमाण के बराबर है,
- (c)  $a$  का परिमाण  $b, c$  तथा  $d$  के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता,
- (d) यदि  $a$  तथा  $d$  संरेखीय नहीं हैं तो  $b + c$  अवश्य ही  $a$  तथा  $d$  के समतल में होगा और यह  $a$  तथा  $d$  के अनुदिश होगा यदि वे संरेखीय हैं।

**हल** (a) सही नहीं हैं, क्योंकि  $(a + b + c + d)$  केवल  $a, b, c$  व  $d$  के शून्य सदिश होने के अतिरिक्त कई अनेक प्रकार से शून्य हो सकता है, जैसे—यदि सदिश भिन्न दिशाओं में कार्यरत हैं तब भी उनका परिणामी शून्य हो सकता है।

- (b) सही है, क्योंकि  $a + b + c + d = 0$

$$\therefore a + c = -(b + d)$$

$$\text{अथवा} \quad |a + c| = |b + d|$$

- (c) सत्य, क्योंकि  $a + b + c + d = 0$

$$\therefore a = -(b + c + d)$$

$$\text{अथवा } |a| = |b + c + d|$$

अतः सदिश  $a$  का परिमाण  $(b + c + d)$  के परिमाण के बराबर होगा। सदिश  $(b + c + d)$  का परिमाण सदिशों  $b, c$  तथा  $d$  के परिमाणों के योग के बराबर या उससे कम होगा परन्तु कभी उससे अधिक नहीं हो सकता है। अतः सदिश  $a$  का परिमाण कभी भी सदिश  $b, c$  व  $d$  के परिमाणों के योग से अधिक नहीं हो सकता है।


- (d) सही है क्योंकि  $a + b + c + d = 0$

$$\text{अथवा } a + (b + c) + d = 0$$

तीन सदिशों  $a, (b + c)$  तथा  $d$  का परिणामी केवल तभी शून्य हो सकता है जब वे एक तल में स्थित हों तथा किसी त्रिभुज की एक क्रम में ली गई तीनों भुजाओं को प्रदर्शित करते हों।

यदि सदिश  $a$  तथा  $b$  एक ही रेखा के अनुदिश या समतापीय हैं, तब सदिश  $(b + c)$  भी उसे रेखा में होगा केवल तभी इन सदिशों का योग शून्य हो सकता है।

**प्रश्न 8.** तीन लड़कियाँ 200 m त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वे सतह के किनारे के बिंदु  $P$  से स्केटिंग शुरू करती हैं तथा  $P$  के व्यासीय विपरीत बिंदु  $Q$  पर विभिन्न पथों से होकर पहुँचती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लम्बाई के बराबर है?



प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्थितियों के बीच की लघुतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।

हल् वृत्तीय पार्क की त्रिज्या = 200 m

प्रत्येक लड़की का विस्थापन, वृत्तीय पार्क के व्यास के बराबर है।


$$\therefore \text{विस्थापन} = \text{वृत्तीय पार्क का व्यास}$$

$$= 2 \times 200$$

$$= 400 \text{ m}$$

लड़की  $B$  का विस्थापन, उसके द्वारा तथ पथ की कुल लम्बाई के बराबर है।

**प्रश्न 9.** कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केन्द्र  $O$  से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे  $P$  पर पहुँचता है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ  $QO$  के रास्ते (जैसे चित्र में दिखाया गया है) केंद्र पर वापस आ जाता है। पार्क की प्रिया 1 km है। यदि पूरे चक्कर में 10 min लगते हों तो साइकिल सवार का (a) कुल विस्थापन, (b) औसत वेग, तथा (c) औसत चाल क्या होगी?



जब कोई वस्तु अपनी प्रारम्भिक स्थिति में वापस लौट आती है तब उसका परिणामी विस्थापन शून्य हो जाता है।

**हल** दिया है, वृत्तीय पार्क की प्रिया = 1 km

(a) व्याँकि साइकिल सवार अपनी प्रारम्भिक स्थिति में वापस लौट आता है अतः उसका परिणामी विस्थापन शून्य होगा।

$$(b) \text{ औसत वेग} = \frac{\text{कुल विस्थापन}}{\text{कुल लगा समय}} = \frac{0}{\text{कुल लगा समय}} = 0$$

(c) साइकिल सवार का कुल विस्थापन

$$\begin{aligned} &= OP + (PQ + QO) \text{ पथ की वास्तविक लम्बाई} \\ &= r + \left(\frac{1}{4} \times 2\pi r\right) + r \\ &= 1 + \left(\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 1\right) + 1 \\ &= 2 + \frac{11}{7} \\ &= \frac{25}{7} \text{ km} \end{aligned}$$

$$\text{कुल लगा समय} = 10 \text{ min}$$

$$= \frac{10}{60} \text{ h} = \frac{1}{6} \text{ h}$$

$$\therefore \text{साइकिल सवार की औसत चाल} = \frac{\text{कुल तय दूरी}}{\text{कुल लगा समय}}$$


$$= \frac{25/7}{1/6} = \frac{150}{7} = 21.43 \text{ km/h}$$

**प्रश्न 10.** किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा गता अपनाता है जो प्रत्येक 500 m के बाद उसके बाईं ओर  $60^\circ$  के कोण पर मुड़ जाता है। किसी दिए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे, छठे व आठवें मोड़ पर विस्थापन बताइए। प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ-लम्बाई के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए।

क्योंकि मोटर चालक प्रत्येक 500 m दूरी के बाद अपनी बाईं ओर  $60^\circ$  के कोण पर मुड़ जाता है, अतः वह एक समष्टाकार पथ पर गति कर रहा है। माना मोटर चालक बिन्दु A से गति प्रारम्भ कर तीसरे सेकण्ड के अन्त में बिन्दु D पर, तथा छठे सेकण्ड के अन्त पर अपनी प्रारम्भिक स्थिति A पर आठवें सेकण्ड के अन्त पर बिन्दु C पर पहुँचता है।

हल दूरी जिसके पश्चात् मोटर चालक मुड़ता है = 500 m

साइकिल सवार प्रत्येक 500 m दूरी तय करने के बाद बाईं ओर  $60^\circ$  के कोण पर मुड़ जाता है अतः वह एक समष्टाकार पथ पर गति कर रहा है। माना मोटर चालक बिन्दु A से गति प्रारम्भ कर तीसरे सेकण्ड के अन्त में बिन्दु D पर, तथा छठे सेकण्ड के अन्त पर अपनी प्रारम्भिक स्थिति A पर आठवें सेकण्ड के अन्त पर बिन्दु C पर पहुँचता है।



$$\begin{aligned}
 \text{(a) मोटर चालक का तीसरे सेकण्ड के अन्त में विस्थापन} &= AD = AO + OD \\
 &= 500 + 500 \\
 &= 1000 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{पथ की कुल लम्बाई} &= AB + BC + CD \\
 &= 500 + 500 + 500 \\
 &= 1500 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\text{विस्थापन का परिमाण}}{\text{पथ की कुल लम्बाई}} = \frac{1000}{1500} = \frac{2}{3} = 0.67$$

(b) छठे मोड़ पर मोटर चालक अपनी प्रारम्भिक स्थिति A पर होगा।  
 $\therefore$  मोटर चालक का छठे मोड़ पर विस्थापन = 0

$$\begin{aligned}
 \text{पथ की कुल लम्बाई} &= AB + BC + CD + DE + EF + FA \\
 &= 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500 \\
 &= 3000 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\text{विस्थापन का परिमाण}}{\text{पथ की कुल लम्बाई}} = \frac{0}{3000} = 0$$

(c) आठवें मोड़ पर मोटर चालक विन्डु C पर है।

$$\therefore \text{मोटर चालक का विस्थापन} = AC$$

सदिश योग के त्रिभुज नियम से,

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{AB^2 + BC^2 + 2AB \cdot BC \cos 60^\circ} \\ &= \sqrt{(500)^2 + (500)^2 + 2 \times 500 \times 500 \times \frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{3 \times (500)^2} \\ &= 500\sqrt{3} \text{ m} \\ &= 500 \times 1.732 \text{ m} = 866 \text{ m} \end{aligned}$$

यह AB दिशा से  $\beta$  कोण अन्तरित करता है,

$$\begin{aligned} \text{अतः } \tan \beta &= \frac{500 \sin 60^\circ}{500 + 500 \cos 60^\circ} \\ &= \frac{500 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{500 + 500 \times \frac{1}{2}} \\ &= \frac{500 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{500 \left(1 + \frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 30^\circ \end{aligned}$$

अथवा

$$\beta = 30^\circ$$

$\therefore$  मोटर चालक का आठवें मोड़ के अन्त पर विस्थापन 866 m है जो प्रारम्भिक गति की दिशा से  $30^\circ$  का कोण बनाता है।

$$\text{पथ की कुल लम्बाई} = 8 \times 500 = 4000 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\text{विस्थापन का परिमाण}}{\text{पथ की कुल लम्बाई}} &= \frac{500\sqrt{3}}{4000} = \frac{\sqrt{3}}{8} \\ &= 0.22 \end{aligned}$$

प्रश्न 11. कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 km दूर है, जाना चाहता है। कोई बैंगान टैक्सी चालक 23 km के चक्कांदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 min में होटल में पहुँचता है।

(a) टैक्सी की औसत चाल, और

(b) औसत वेग का परिमाण क्या होगा? क्या वे बराबर हैं?

$$\therefore |v_{nw}| = \sqrt{(30)^2 + (10)^2} \\ = \sqrt{900 + 100} = \sqrt{1000} \text{ m/s} \\ = 10\sqrt{10} \text{ m/s}$$

यदि  $v_{nw}$ , ऊर्ध्वाधर से  $\alpha$  कोण बनाता है, तब

$$\tan \alpha = \frac{v_w}{v_r} = \frac{10}{30} \\ = \frac{1}{3} = 0.3333$$

अथवा

$$\alpha = 18^\circ 26'$$

अतः महिला को अपना छाता ऊर्ध्वाधर से दक्षिण को ओर  $18^\circ 26'$  कोण पर पकड़ना चाहिए।

**Ques 12** किसी लंबे हॉल की छत 25 m ऊँची है। वह अधिकतम क्षेत्र दूरी कितनी होगी जिसमें 40 m/s की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए?

एक प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊँचाई

$$H = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

तथा क्षेत्र धरास  $R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$

हल दिया है, प्रारम्भिक वेग ( $u$ ) = 40 m/s

हॉल की ऊँचाई ( $H$ ) = 25 m

माना गेंद को  $\theta$  कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है जबकि उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई 25 m है।

गेंद द्वारा प्राप्त महत्तम ऊँचाई

$$H = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$25 = \frac{(40)^2 \sin^2 \theta}{2 \times 9.8}$$

अथवा  $\sin^2 \theta = \frac{25 \times 2 \times 9.8}{1600}$   
 $= 0.3063$

अथवा  $\sin \theta = 0.5534$   
 $= \sin 33.6^\circ$

अथवा  $\theta = 33.6^\circ$   
 $\therefore$  क्षेत्रिज परास ( $R$ ) =  $\frac{u^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{(40)^2 \sin 2 \times 33.6^\circ}{9.8}$   
 $= \frac{1600 \times \sin 67.2^\circ}{9.8}$   
 $= \frac{1600 \times 0.9219}{9.8} = 150.5 \text{ m}$

### Ques 13

क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 m की अधिकतम क्षेत्रिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊँचाई तक फेंक सकता है?

क्षेत्रिज परास अधिकतम होता है जब प्रक्षेपण कोण  $45^\circ$  होता है।

हल प्रक्षेप्य का क्षेत्रिज परास

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

यदि  $\theta = 45^\circ$  तब  $R$  अधिकतम होगा तथा इसका मान

$$R_{\max} = \frac{u^2}{g}$$

दिया है,

$$R_{\max} = 100 \text{ m}$$

$$\therefore 100 = \frac{u^2}{g} \quad \dots(1)$$

जब क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को ऊर्ध्वाधर फेंकता है तो गेंद  $H$  ऊँचाई तक जाती है।

गति के समीकरण से,

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$(0)^2 = u^2 + 2(-g)H$$

अथवा  $H = \frac{u^2}{2g} = \frac{1}{2} \left( \frac{u^2}{g} \right)$   
 $= \frac{1}{2} \times 100 = 50 \text{ m}$  [सभी (1)]

### Ques 14

80 cm लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बाँधा गया है और इसे किसी एकसमान चाल के साथ किसी क्षेत्रिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 s में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर का त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी?

एकसमान वृत्तीय गति में वस्तु पर त्वरण  $a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$  उसके वृत्तीय पथ के केन्द्र की ओर कार्य करता है।

हल क्षेत्रिज वृत्त की त्रिज्या = धागे की लम्बाई = 80 cm = 0.80 m

$$\text{वृत्तीय गति की आवृत्ति } (n) = \frac{14}{25} \text{ s}^{-1}$$

पत्थर की वृत्तीय गति की कोणीय चाल

$$\begin{aligned}\omega &= 2\pi n \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{14}{25} \\ &= \frac{88}{25} \text{ rad/s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{पत्थर का अभिकेन्द्र त्वरण } (a) &= r\omega^2 \\ &= 0.80 \times \left(\frac{88}{25}\right)^2 \\ &= 0.80 \times \frac{88}{25} \times \frac{88}{25} = 9.91 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

त्वरण की दिशा क्षेत्रिज वृत्तीय पथ के केन्द्र की ओर अर्थात् उसकी त्रिज्या के अनुदिश है।

Ques 15 कोई वायुयान 900 km/h की एकसमान चाल से उड़ रहा है और 1.00 km त्रिज्या का कोई क्षेत्रिज लूप बनाता है। इसके अभिकेन्द्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए।

हल क्षेत्रिज लूप की त्रिज्या ( $r$ ) = 1 km = 1000 m

$$\begin{aligned}\text{वायुयान की चाल } (v) &= 900 \text{ km/h} \\ &= 900 \times \frac{5}{18} \text{ m/s} \quad \left( \because 1 \text{ km/h} = \frac{5}{18} \text{ m/s} \right) \\ &= 250 \text{ m/s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{वायुयान का अभिकेन्द्र } a &= \frac{v^2}{r} = \frac{(250)^2}{1000} = \frac{62500}{1000} \\ &= 62.5 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

$$\text{गुरुत्वीय त्वरण } (g) = 9.8 \text{ m/s}^2$$


$$\begin{aligned}\therefore \frac{\text{अभिकेन्द्र त्वरण } (a)}{\text{गुरुत्वीय त्वरण } (g)} &= \frac{62.5}{9.8} \\ &= 6.38\end{aligned}$$

### Ques 16

नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य

- वृत्तीय गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केन्द्र की ओर होता है।
- किस बिन्दु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिन्दु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है?
- किसी कण का एकसमान वृत्तीय गति में एक चक्र में लिया गया औसत त्वरण सदिश एक शून्य सदिश होता है।

हल (a) असत्य, क्योंकि एकसमान वृत्तीय गति में अभिकेन्द्र त्वरण की दिशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केन्द्र की ओर होती है परन्तु असमान वृत्तीय गति में परिणामी त्वरण की दिशा त्रिज्या में अनुदिश केन्द्र की ओर नहीं होती है।



- सत्य, क्योंकि किसी बिन्दु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिन्दु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है गति चाहे रेखीय हो, वृत्तीय या वक्रीय।
- सत्य, क्योंकि एकसमान वृत्तीय गति में त्वरण सदिश की दिशा सदैव वृत्तीय पथ के केन्द्र की ओर होती है जोकि समय के साथ नित्तर परिवर्तित होती रहती है। अतः एक पूर्ण चक्र के लिए इन सभी सदिशों का परिणामी एक शून्य सदिश होता है।

किसी कण की स्थिति सदिश निम्नलिखित है

### Ques 17

$$\mathbf{r} = 3.0t\hat{i} - 2.0t^2\hat{j} + 4.0\hat{k} \text{ m}$$

समय  $t$  सेकंड में है तथा गुणकों के मात्रक इस प्रकार से हैं कि  $r$  में मीटर में व्यक्त हो जाए।

- कण का  $v$  तथा  $a$  निकालिए,
- $t = 2 \text{ s}$  पर कण के वेग का परिमाण तथा दिशा कितनी होगी?

हल कण का स्थिति सदिश

$$\mathbf{r} = 3.0t\hat{i} - 2.0t^2\hat{j} + 4.0\hat{k} \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{(a) कण का वेग, } \mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(3.0t\hat{i} - 2.0t^2\hat{j} + 4.0\hat{k}) \\ &= (3.0\hat{i} - 4.0t\hat{j}) \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{कण का त्वरण, } \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{t} (3.0\hat{i} - 4.0t\hat{j}) \\ &= 0 \cdot \hat{i} - 4.0\hat{j} = (-4.0\hat{j}) \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

(b) कण का समय  $t = 2 \text{ s}$  पर वेग,

$$\mathbf{v} = (3.0\hat{i} - 4.0 \times 2\hat{j}) \text{ m/s} = (3.0\hat{i} - 8.0\hat{j}) \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned}\text{अथवा } v &= \sqrt{(3.0)^2 + (8.0)^2} = \sqrt{9 + 64} = \sqrt{73} \\ &= 8.54 \text{ m/s}\end{aligned}$$

यदि वेग,  $x$ -अक्ष से  $\theta$  कोण बनाता है, तब

$$\begin{aligned}\tan\theta &= \frac{v_y}{v_x} = -\frac{8.0}{3.0} = -2.667 \\ &= -\tan 69.5^\circ\end{aligned}$$

$\theta = 69.5^\circ$ ,  $x$ -अक्ष से नीचे की ओर

$\therefore$  अतः  $t = 2 \text{ s}$  पर कण का वेग  $x$ -अक्ष से नीचे की ओर  $8.45 \text{ m/s}, 69.5^\circ$  कोण बनाता है।

**Ques 18**

कोई कण  $t = 0$  क्षण पर मूल बिन्दु से  $10.0\hat{j}$  m/s के वेग से चलना प्रारंभ करता है

तथा  $X-Y$  समतल में एक समान त्वरण  $(8.0\hat{i} + 2.0\hat{j}) \text{ m/s}^2$  से गति करता है।

(a) किस क्षण कण का  $x$ -निर्देशांक  $16 \text{ m}$  होगा? इसी समय इसका  $y$ -निर्देशांक कितना होगा? कण कल चाल कितनी होती है?

(b) किसी क्षण कण की चाल क्या होगी?

**हल** दिया है,  $t = 0, \mathbf{u} = 10.0\hat{j}$  m/s

$$\text{त्वरण (a)} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = (8.0\hat{i} + 2.0\hat{j}) \text{ m/s}^2$$

अथवा

$$d\mathbf{v} = (8.0\hat{i} + 2.0\hat{j}) dt$$

दोनों पक्षों का गति सीमा में समाकलन करने पर,

$$\int_u^v d\mathbf{v} = \int_0^t (8.0\hat{i} + 2.0\hat{j}) dt$$

$$\mathbf{v} - \mathbf{u} = (8.0\hat{i} + 2.0\hat{j})t$$

अथवा

$$\mathbf{v} = \mathbf{u} + 8.0t\hat{i} + 2.0t\hat{j}$$

परन्तु

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

अथवा

$$d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$$

$$= (\mathbf{u} + 8.0t\hat{i} + 2.0t\hat{j}) dt$$

दोनों ओर का संगत सीमाओं में समाकलन करने पर

$$\int_0^r dr = \int_0^t (u + 8.0t\hat{i} + 2.0t^2\hat{j}) dt$$

$$r - 0 = ut + 8.0 \times \frac{t^2}{2}\hat{i} + 2.0 \times \frac{t^2}{2}\hat{j}$$

अथवा  $r = 10.0t\hat{j} + 4.0t^2\hat{i} + t^2\hat{j}$

अथवा  $x\hat{i} + y\hat{j} = 4.0t^2\hat{i} + (10.0t + t^2)\hat{j}$   
 $\therefore x = 4.0t^2 \text{ and } y = 10.0t + t^2$

(a) जब  $x = 16\text{ m}$ , तब

$$16 = 4.0t^2$$

अथवा  $t^2 = 4 \Rightarrow t = 2\text{ s}$   
 $\therefore y = 10.0 \times 2 + (2)^2$   
 $= 24\text{ m}$

(b) कण का वेग

$$v = u + 8.0t\hat{i} + 2.0t\hat{j}$$

$$= 10.0\hat{j} + 8.0t\hat{i} + 2.0t\hat{j}$$

समय  $t = 2\text{ s}$  पर,

$$v = 10\hat{j} + 8 \times 2\hat{i} + 2 \times 2\hat{j}$$

$$= 16\hat{i} + 14\hat{j}$$

$$\therefore v = \sqrt{(16)^2 + (14)^2} = 21.26\text{ m/s}$$

Ques 19

$\hat{i}$  व  $\hat{j}$  क्रमशः  $x$ - व  $y$ -अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं। सदिशों  $\hat{i} + \hat{j}$  तथा  $\hat{i} - \hat{j}$  का परिमाण तथा दिशा क्या होगा? सदिश  $A = 2\hat{i} + 3\hat{j}$  के  $\hat{i} + \hat{j}$  व  $\hat{i} - \hat{j}$  के दिशाओं के अनुदिश घटक निकालिए। [आप ग्राफी विधि का उपयोग कर सकते हैं]

दिया है, सदिश  $A = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$  का परिमाण

$$A = |A| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

यदि सदिश  $x$ -अक्ष से  $\theta$  कोण अन्तरित करती है, तब

$$\tan\theta = \frac{A_y}{A_x}$$

हल (a) सदिश  $(\hat{i} + \hat{j})$  का परिमाण  $= \sqrt{(1)^2 + (1)^2} \therefore \sqrt{2}$

यदि सदिश  $x$ -अक्ष से  $\theta$  कोण आन्तरित करती है, तब

$$\tan\theta = \frac{A_y}{A_x} = \frac{1}{1} = 1 \\ = \tan 45^\circ$$

अथवा

$$\theta = 45^\circ$$

$$\text{सदिश } (\hat{i} - \hat{j}) \text{ का परिमाण} = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

यदि सदिश  $(\hat{i} - \hat{j})$   $x$ -अक्ष से  $\theta$  कोण अन्तरित करती है, तब

$$\tan\theta = \frac{A_y}{A_x} = \frac{(-1)}{1} = -1 \\ = -\tan 45^\circ$$

अथवा

$$\theta = -45^\circ$$

अतः सदिश  $(\hat{i} - \hat{j})$ ,  $x$ -अक्ष से ऋणात्मक दिशा में  $45^\circ$  का कोण अन्तरित करता है।

(b) सदिश  $A = 2\hat{i} + 3\hat{j}$  का सदिश  $(\hat{i} + \hat{j})$  की दिशा में घटक ज्ञात करना

$$\text{माना} \quad B = (\hat{i} + \hat{j})$$

$$A \cdot B = AB\cos\theta = (A\cos\theta) \cdot B$$

$$\text{अथवा} \quad A\cos\theta = \frac{A \cdot B}{B}$$

$\therefore$  सदिश  $A$  का सदिश  $B$  की दिशा में घटक का परिमाण  $= A\cos\theta$

$$= \frac{A \cdot B}{B} = \frac{(2\hat{i} + 3\hat{j}) \cdot (\hat{i} + \hat{j})}{\sqrt{(1)^2 + (1)^2}}$$

$$= \frac{2\hat{i} \cdot \hat{i} + 3\hat{j} \cdot \hat{j}}{\sqrt{2}} = \frac{2+3}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

सदिश  $(\hat{i} + \hat{j})$  के अनुदिश एकांक सदिश

$$\hat{n} = \frac{(\hat{i} + \hat{j})}{|\hat{i} + \hat{j}|} = \frac{(\hat{i} + \hat{j})}{\sqrt{2}}$$

सदिश  $A$  का  $(\hat{i} + \hat{j})$  के अनुदिश घटक = सदिश  $A$  का  $(\hat{i} + \hat{j})$  के अनुदिश घटक  
का परिमाण  $\cdot \hat{n}$

$$= \frac{5}{\sqrt{2}} \cdot \frac{(\hat{i} + \hat{j})}{\sqrt{2}} = \frac{5}{2} (\hat{i} + \hat{j})$$

सदिश A का सदिश  $(\hat{i} - \hat{j})$  के अनुदिश घटक का परिमाण

$$\begin{aligned}&= \frac{(2\hat{i} + 3\hat{j}) \cdot (\hat{i} - \hat{j})}{|\hat{i} - \hat{j}|} \\&= \frac{2\hat{i} \cdot \hat{i} - 3\hat{j} \cdot \hat{j}}{\sqrt{(\hat{i})^2 + (-\hat{j})^2}} = \frac{2 - 3}{\sqrt{2}} \\&= -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

सदिश  $(\hat{i} - \hat{j})$  के अनुदिश एकांक सदिश

$$\hat{n} = \frac{(\hat{i} - \hat{j})}{|\hat{i} - \hat{j}|} = \frac{(\hat{i} - \hat{j})}{\sqrt{2}}$$

$\therefore$  सदिश A का सदिश  $(\hat{i} - \hat{j})$  के अनुदिश घटक

$$\begin{aligned}&= \text{सदिश A का सदिश } (\hat{i} - \hat{j}) \text{ के अनुदिश घटक का परिमाण} \cdot \hat{n} \\&= -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{(\hat{i} - \hat{j})}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2}(\hat{i} - \hat{j})\end{aligned}$$

**Ques 20** किसी दिक्षयान पर एक स्वेच्छ गति के लिए निम्नलिखित सम्बन्ध में से कौन-सा सत्य है?

- |  |  |
|--|--|
| (a) $v_{\text{औसत}} = \frac{1}{2}[v(t_1) + v(t_2)]$  | (b) $v_{\text{औसत}} = [r(t_2) - r(t_1)]/(t_2 - t_1)$ |
| (c) $v(t) = v(0) + at$                               | (d) $r(t) = r(0) + v(0)t + \frac{1}{2}at^2$          |
| (e) $a_{\text{औसत}} = [v(t_2) - v(t_1)]/(t_2 - t_1)$ |  |

यहाँ 'औसत' का आशय समय अंतराल  $t_1$  व  $t_2$  से सम्बन्धित भौतिक राशि के औसत मान से है।

हल सम्बन्ध (b) तथा (e) किसी दिक्षयान पर स्वेच्छ गति के लिए सत्य हैं जबकि सम्बन्ध (a), (c) तथा (d) असत्य हैं।

क्योंकि वे एकसमान त्वरित गति के लिए सत्य हैं।

**Ques 21** निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्क पढ़िए तथा कारण एवं उदाहरण सहित बताइए कि क्या यह सत्य है या असत्य?

अदिश वह राशि है जो

- किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है,
- कभी ऋणात्मक नहीं होती,
- विमाहीन होती है,

- (d) किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती,  
 (e) उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास  
 भिन्न-भिन्न क्यों न हों।

- हल**
- (a) असत्य, क्योंकि ऐसी अनेक अदिश राशियाँ हैं जो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती हैं। उदाहरण ऊर्जा एक अदिश राशि है परन्तु यह एक अप्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित नहीं रहती है।
  - (b) असत्य, क्योंकि कुछ अदिश राशियाँ ऋणात्मक भी हो सकती हैं। उदाहरण ताप एक अदिश राशि है परन्तु यह ऋणात्मक भी हो सकता है जैसे-  $-10^{\circ}\text{C}$ ,  $-33^{\circ}\text{C}$  आदि।
  - (c) असत्य, क्योंकि अनेकों अदिश राशियों की विमारं होती हैं। जैसे-द्रव्यमान, घनत्व, चाल, दाब आदि सभी की विमारं होती हैं।
  - (d) असत्य, क्योंकि कुछ अदिश राशियाँ किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच बदल जाती हैं। जैसे-घनत्व, ताप, आवेश घनत्व आदि अन्तरिक्ष में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच परिवर्तित हो जाते हैं।
  - (e) सत्य, क्योंकि अक्षों के अभिविन्यास परिवर्तन का अदिश राशियाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे-द्रव्यमान, घनत्व आदि अक्षों के अभिविन्यास से स्वतन्त्र रहते हैं।

**Ques 22**

कोई वायुयान पृथ्वी से  $3400 \text{ m}$  की ऊँचाई पर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अबलोकन बिंदु पर वायुयान की  $10 \text{ s}$  की दूरी की स्थितियाँ  $30^{\circ}$  का कोण बनाती हैं तो वायुयान की चाल क्या होगी?

**हल** माना वायुयान की समय  $t = 0$  पर स्थिति  $A$  तथा समय  $t = 10\text{s}$  पर स्थिति  $B$  है।

दिया है,  $\angle AOB = 30^{\circ}$  तथा वायुयान की पृथ्वी से ऊँचाई  $h = 3400 \text{ m}$

समकोण  $\triangle OAB$  में,

$$\tan 30^{\circ} = \frac{AB}{OA}$$

$$AB = OA \tan 30^{\circ}$$

$$= 3400 \times \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{3400}{1.732} \text{ m}$$

$$\text{वायुयान की चाल} = \frac{\text{तय की गई दूरी}}{\text{लगा समय}}$$

$$= \frac{3400}{1.732} \times \frac{1}{10}$$

$$= 196.30 \text{ m/s}$$

